



भारत की पहली हाथों से बनाई गई, बजट में आने वाली ज्योतिषीय रिपोर्ट।
37 साल के अनुभव और 10 साल की ऑनलाइन सेवा के साथ, हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम ने ये
कुंडली रिपोर्ट खास आपके लिए तैयार की हैं।
आपका भरोसा हमारे लिए अनमोल है, और हम वादा करते हैं कि आपको सच्ची, सीधी और काम की
ज्योतिषीय सलाह देंगे — ताकि आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर सही फैसला ले सकें।


Love Disappointment रिपोर्ट

नाम: आन्या वर्मा

जन्म तिथि: 22 जून 1997

समय: दोपहर 4:10 बजे

स्थान: भोपाल, मध्यप्रदेश



☾ आपकी भावनात्मक दुनिया

आपका जन्मकुंडली साफ बताती है कि आप बहुत दिल से प्यार करती हैं, और जब किसी से जुड़ती हैं तो पूरी सच्चाई से जुड़ती हैं। लेकिन कुंडली में राहु का सप्तम भाव (7वां घर) में होना बताता है कि प्यार में अक्सर गलतफहमियाँ, धोखा या अचानक ब्रेकअप हो जाते हैं।

💔 दिल टूटने की वजह

- आपकी शुक्र की स्थिति कमजोर है, जो दर्शाता है कि आपको अक्सर ऐसा साथी मिलता है जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता।
- चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, जिससे आप ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं जो भावनात्मक रूप से दूर होते हैं।
- राहु-केतु की धुरी (1-7 भाव) यह दिखाती है कि आपका रिश्ता काफ़ी कर्म से जुड़ा हुआ था, जो गहरा तो था, पर टिकाऊ नहीं।

🔄 क्या यह रिश्ता पिछले जन्म का असर था?

जी हां, इस रिश्ते में कर्मिक जुड़ाव था। शायद यह रिश्ता आपके जीवन में सबक सिखाने आया था — प्यार करना, खुद को समझना और आगे बढ़ना।

कब सुधरेगा दिल का हाल?

इस वक्त आप चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतरदशा में हैं — इसलिए थोड़ा भारी और अकेलापन महसूस हो सकता है।


अच्छा समय शुरू होगा: फरवरी 2026 से — जब शुक्र की अंतरदशा शुरू होगी। ये वक्त प्यार, सुकून और नए रिश्तों की शुरुआत का संकेत देता है।

दिल को शांत करने के उपाय

- हर शुक्रवार “ॐ श्री शुक्राय नमः” का जप करें
 - गुलाबी रंग का कपड़ा या रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनें
 - शुक्रवार को सफेद मिठाई बांटे और खुद भी मीठा खाएं
 - और सबसे जरूरी — पुराने रिश्ते को सोशल मीडिया या यादों में दोबारा मत खींचो, उसे सम्मान के साथ विदा दो
-

आखिरी बात

ये प्यार सिर्फ आपको तोड़ने नहीं, आपको मजबूत बनाने आया था। दिल टूटा है, पर किस्मत नहीं। सही वक्त आने पर आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आएगा, जो न सिर्फ आपको समझेगा बल्कि आपकी इज्जत भी करेगा।

तब तक खुद से प्यार करो — और अपने आप को वक्त दो। 

Prepared by: Pdt. Ravi Om Joshi, Professional Astrologer
JyotishAsha.com